



AGRA POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"



प्रेसनोट शाहगंज जनपद आगरा ।

18.06.2022

थाना शाहगंज पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार...

जनपद में चोरी, लूट, जुआ-सट्टा आदि आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं घटना में संलिप्त अभियुक्तगण व वारण्टी, वांछित, गैंगस्टर एक्ट आदि अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में, क्षेत्राधिकारी लोहामण्डी के सफल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक शाहगंज को टीम गठित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में दिनांक 18.06.2022 को थाना शाहगंज पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में गश्त की जा रही थी। गश्त के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि थाना शाहगंज पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 298/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्तगण सलमान व मौहम्मद बली ईदगाह बस स्टैण्ड के पास कहीं जाने की फिराक में खडे हुये है, यदि जल्दी की जाये तो गिरफ्तार किये जा सकते है।

इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंची। पुलिस टीम को देख अभियुक्तगण भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा चारों ओर से घेरकर 02 अभियुक्तो को गिरफ्तार कर लिया गया।

✓ गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

01. सलमान पुत्र अब्दुल रशीद निवासी 6/151 गालिबपुर नाई की मण्डी थाना नाई की मण्डी जनपद आगरा।
02. मौहम्मद बली पुत्र अली मौहम्मद निवासी पप्पन वाली गली आजमपाडा पृथ्वीनाथ फाटक के पास थाना शाहगंज जनपद आगरा।

✓ आपराधिक इतिहास का विवरण:-

01. अभियुक्त सलमान उपरोक्त:-

01. मु0अ0सं0 298/22 धारा 2/3 यू0पी0 गैगस्टर एक्ट थाना शाहगंज जनपद आगरा ।
02. मु0अ0सं0 570/20 धारा 3/5क/8 गोवध अधिनियम थाना शाहगंज जनपद आगरा ।

02. अभियुक्त मौहम्मद बली उपरोक्त:-

01. मु0अ0सं0 298/22 धारा 2/3 यू0पी0 गैगस्टर एक्ट थाना शाहगंज जनपद आगरा ।
02. मु0अ0सं0 570/20 धारा 3/5क/8 गोवध अधिनियम थाना शाहगंज जनपद आगरा ।

✓ पुलिस टीम का विवरण:-

01. प्रभारी निरीक्षक श्री जसवीर सिंह सिरोही थाना शाहगंज जनपद आगरा ।
02. वरि0उ0नि0 श्री अवनीश त्यागी थाना शाहगंज जनपद आगरा ।
03. है0का0 अरविन्द कुमार, है0का0 उमेश कुमार, का0 कपिल तोमर, का0 सुमित पवार थाना शाहगंज जनपद आगरा ।

मीडिया सेल जनपद आगरा ।